



TEST REQUISITION FORM

Test Name/Test Code
(Please refer to the Directory of Services for correct name and specimen type)

HIS kopath

Uterus (medium)

Patient Details

First Name: Mrs Shanti Last Name: devi

Age: 45y Gender: Male Female

Address: Bhimedi

Contact No.:

E-mail ID:

Referred by: Contact No.: 9072419756

For Maternal Screening - Date of Birth :- DD MM YYYY

Weight: kg. Height: ft inches, LMP Last Ultrasound Report

Instructions to Laboratory/Clinical Information

Sent Specimen Information

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen

Sample / Vial Type	Vial ID Barcode
Molq 10322775	

Billing Information

Client Name: Sfm Hospital

Client ID:

Total Amount: 600

Amount Received: Receipt No.:

Amount Balance / Due:

Payment via: CASH CHEQUE CREDIT

Specimen Type Received (For MolQ use only)

- Serum
- Plasma: EDTA/FL/CIT
- SST
- W. Blood EDTA
- W. Blood Fluoride
- W. Blood Heparin
- W. Blood Sodium Citrate
- Bone Marrow
- FN Aspirate
- Tissue Formalin
- Paraffin Block
- Smear
- Slide (H&E)
- Pus
- Blood Culture Bottle
- CSF
- Fluid
- BAL
- Sputum
- Urine
- Stool
- Swab
- Others

Other Sample Type / Source:

Received Specimen Information (For MolQ use only)

Temperature: Ambient Refrigerated Frozen
Date: Time: Patient ID No. of vials/container

Signature of Accessioning Officer(s)

Total No. of Vials/Container

Specimen Collection Information

Date: 15/01/18 Time:

Fasting: Yes No Fasting Period: Hrs.

Collection by: Gupta

Urine Volume: ml Hrs.

Patient Consent : I hereby authorize MolQ Laboratory to use and share with affiliates my personal information including but not limited to any condition / disease information etc. as may be necessary to perform the test or services etc. Medical records/information, to the extent of the applicable by laws and regulations, will be kept confidential and will not be made publicly available. Further, I authorize the use of the leftover specimens for immediate research and in future research of any kind and at any time in the future. The samples will be coded to maintain confidentiality and will be discarded as per the rules and regulations specified as applicable by law. In the event of any publication by MolQ Laboratory, patient's identity will remain confidential. I agree to this access of my medical records and specimen for diagnostic and research purpose.

Disclaimer : For any test/service related complain/query please contact MolQ Laboratory for resolution. In case of any dispute the jurisdiction will be Head Office, Dehradun, Uttarakhand. The financial liability or compensation of any sort is not more than MRP of the Test requested.

रोगी सहमति : मैं मोल्क्यु प्रयोगशाला को अधिकृत करता हूँ कि मेरी पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी अपनी किसी भी शाखा के साथ साझा कर सकती है। मेरी बीमारी की हालत या सूचना का खुलासा अगर परीक्षण के संचालन के लिए आवश्यक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूँ यद्यपि यह जानकारी उस सीमा तक साझा की जाए जो कि कानूनी सीमा के अंतर्गत हो। मेरी इस प्रकार की जानकारी को पूर्ण रूप से गुप्त रखा जाए और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ना कराई जाए। इसके पश्चात मैं प्रयोगशाला को देबारा अधिकृत करता हूँ कि जो नमूना जाँच के लिए उपलब्ध करवाया था, उसमे से बचे हुए नमूने को प्रयोगशाला कमी भी और किसी भी समय किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए उपयोग में ला सकती है। शेष नमूने को पूर्ण रूप से अंकित किया जाए और गुप्त रूप से रखा जाए, जब इसको नष्ट किया जाए तो पूर्ण रूप से नियम और विनियमता का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार के मोल्क्यु प्रयोगशाला के प्रकाशन में रोगी की निजी जानकारियों को पूर्ण रूप में गुप्त रखा जाएगा। मैं सहमत हूँ कि मेरी मेडिकल रिकॉर्ड और मेरे बचे हुए नमूने को नैदानिक प्रयोग और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

अस्वीकृति : किसी भी जाँच सम्बन्ध शिकायत या जानकारी हेतु आप मोल्क्यु प्रयोगशाला को सम्पर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कानूनी झगड़े हेतु हमारा मुख्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड है, किसी भी जाँच का मूल्य उसके दिए अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक नहीं होगा।

Patient/Client /Doctor's Signature
Date :

LAB NO.

--	--	--	--	--	--	--



Dr. Lal Path Labs Ltd.

Regd. Office: "Eskay House", 54, Hanuman Road, New Delhi-110 001
 E-mail: lalpathlabs@lalpathlabs.com Website: www.lalpathlabs.com

HISTOPATHOLOGY REQUISITION FORM

Corporate Star Hospital Referring Doctor Dr Deepshikha Date 13-1-2018
 Name Smt Santi Devi Date of Birth 45 Y F Sex : Male / Female
 Telephone _____ Collection Centre _____ RCC _____
 (if different)

Site of Specimen :

Uterus with Cervix for HPE

Relevant Clinical History :

P4 L2 with C-V pedunc

Additional Clinical and Relevant Data :

Panel - 1/11. 2 SA.

(Previous Biopsy / FNAC / X-Ray etc.) Clinical Diagnosis :

Type of Specimen

Large Medium Small

Miscellaneous

IHC markers

Special Stains

Microphotography

Histopath Slides / Block for review :

Fixation

Adequate

In adequate

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP FORM :

1. Please tick appropriate boxes only as
2. Please furnish complete clinical details along with Request form.
3. Samples details not covered above should be entered in Miscellaneous box.
4. Do not omit telephone number of Patient / Referring Doctor.
5. Immerse specimen completely in appropriate fixative (10% formalin / others) before dispatch
6. Rs. 200/- extra charges for microphotography requests.